

**JESUS MARY JOSEPH SCHOOL**  
**SYLLABUS 2022-23**  
**CLASS PREP**  
**CYCLE-I (APRIL – JULY)**

**ENGLISH: - ALPHA FUN (Level-3)**

Alphabets Capital (A -Z) Pg. No. (5)

Cursive Small (a – z) Pg. No. (6 to 13)

'a' sound words Pg. No. (15 to 23)

**ENGLISH RHYMES: - ZOOM RHYMES PRE SCHOOL – 3**

Pg. No. (7 to 10)

**HINDI: - PITARA(Level- I)**

अ - आ:Pg. No. (5 to 27)

क-इ.Pg. No. (28 to 36)

**HINDI:- Run – Jhun – II**

Pg. No. (5 to 12)

**MATH:- ZOOM NUMERACY**

Counting – 1 to 20 Pg. No. (71 to 74), (78 to 80)

Before, After, Between, Missing and Backward Counting.

**EVS:- ZOOM – GENERAL AWARENESS –PRESCHOOL – III**

Pg. No. (7 to 23)

**DRAWING:-**Garden Scene

**ORIGAMI:-** Flower

**STORY TELLING:-** English

**JUHI AND THE CATERPILLAR**

One day Juhi sat in the park to eat a sandwich. She threw the plastic wrapper on the ground. Then a caterpillar said, 'Hey! Why did you throw plastic wrapper on the ground? 'This wrapper will dirty the Earth. We should keep the Earth and nature clean'.

'I am sorry', said Juhi. 'I did not know that'.

**A bird pecked at the plastic wrapper. The caterpillar said, 'If the bird eats plastic, it will die. You should throw the wrapper in the dustbin, not on the ground'. Juhi threw the plastic wrapper in the dustbin. 'Thank you,' said the caterpillar. 'You have cleaned the Earth of plastic. You are a good girl'.**

**Moral: Cleanliness is next to godliness.**

## **CYCLE-II (AUGUST - SEPTEMBER)**

**ENGLISH:-**'e' Sound Words Pg. No. (28 to 35)

'l' Sound Words Pg. No. (36 to 44)

**ENGLISH RHYMES:-**Pg. No. (11, 12 & 14)

**HINDI:-** च- ष Pg. No. (37 to 54)

**HINDI RHYMES:-** Pg. No. (13 to 20)

**MATH:-**Counting – 21 to 40 Pg. No. (97 to 100), (105 to 107)

Counting – 41 to 70 Pg. No. (108 to 112, 118 & 119)

Number Names (One to Ten) Pg. No. (75 to 77)

Before, After, Between, Missing and Backward

Counting.

**EVS:-** Pg. No. (24 to 35); (38 to 50); (59 to 64); (75, 76, 97 to 99)

**DRAWING:-**National Flag and National Flower

**ORIGAMI:-** Ice - Cream

**STORY TELLING:-** Hindi

### **समय पर उठना**

एक बालक था। उसका नाम अमन था। वह रात को देर से सोता इसलिए रोज़ स्कूल देर से पहुँचता था।

एक सुबह उसकी माँ के बार-बार उठाने पर भी वह नहीं उठ रहा था। माँ ने याद दिलाया की आज स्कूल में उत्सव है।

अमन जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बहार आया पर स्कूल बस जा चुकी थी।

माँ उसे कार में स्कूल ले गई | पर स्कूल का गेट बंद हो चुका था | अमन रोता- रोता वापस आया | अगले दिन स्कूल में दोस्तों ने उत्सव के बारे में बताया की उन्होंने कितना मज़ा किया | यह सुनकर अमन उदास हो गया | उसने ठान लिया की अब से वह रात को जल्दी सोएगा ताकि सुबह जल्दी उठ सके |

सारांश - इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है की हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए |

### **CYCLE-III (OCTOBER – NOVEMBER)**

**ENGLISH :-** ‘o’ Sound Words Pg. No.(45 to 55)

‘u’ Sound WordsPg. No. (56 to 65)

‘oo’, ‘ee’ & ‘ll’ Sound Words Pg. No. (76 to 79)

**ENGLISH RHYMES :-**Pg. No. (16,18&20)

**HINDI :-** त- वPg. No. (55 to 82)

दो अक्षर के शब्द

**HINDI RHYMES :-** Pg. No. (21 to 28)

**MATH :-**Counting – 71 to 100Pg. No.(120 to 125);Pg. No.(131&132)

Before, After, Between, Missing and Backward  
Counting.

**EVS :-** Pg. No. (36, 37, 51 to 58);(65 to 74);(81 to 86);(102 to 106)

**DRAWING :-** Flower Bouquet

**ORIGAMI :-** Rabbit

**STORY TELLING :-** English

#### **The Monkey and The Crocodile**

**A monkey lived in a big tree on the bank of a river. Everyday a crocodile came and rested under the tree. Sometimes the monkey gave fruits to the crocodile.**

**One day, the crocodile’s wife said to him “The monkey eats sweet fruits everyday so his heart must be very sweet. Please bring the monkey here, I want to eat his heart”. So**

the crocodile invited the monkey to dinner. The monkey agreed to go. When they were in the middle of the river, the crocodile said, "My wife wants to eat your heart, so I am taking you to her".

The clever monkey said, "I have left my heart on the tree and I will bring it for your wife". The crocodile carried the monkey back to the tree. The monkey climbed up the tree and said, "You fool ! I always keep my heart with me. Now come up and take it.

**Moral:- Act cleverly in different situations.**

### **FINAL CYCLE (DECEMBER – FEBRUARY)**

**ENGLISH :-** Concept of a, an Pg. No. (88 to 90)

Concept of 'This' & 'That' Pg. No. (93 & 94)

**ENGLISH RHYMES :-** Pg. No. (22, 24 to 26)

**HINDI :-** श - ज्ञ Pg. No. (83 to 92)

दो अक्षर के शब्द

**HINDI RHYMES :-** Pg. No. (29 to 37)

**MATH :-** Subtraction Pg. No. (155 to 159); 162

Skip Counting of 3 & 5

Table of 5 & 10

**Oral :-** Money (163 to 165)

Time (173 to 177)

Shapes (22 to 50)

**E.V.S. :-** Pg. No. (77 to 80);(87 to 96);(100, 101, 107 to 122)

**DRAWING :-** Aquarium

**ORIGAMI :-** House

## STORY TELLING :- Hindi

### एकता में बल

एक जंगल में एक पेड़ पर कई पक्षी बैठा करते थे। एक दिन एक शिकारी ने पेड़ के पास चावल के दानों पर जाल बिछा दिया। इसके बाद वह उस पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ समय बाद पेड़ पर कबूतरों का एक बड़ा झुंड आकर बैठ गया और उनकी नज़र चावल

के दानों पर पड़ी। वे दानों को खाने के लिए मचलने लगे। तब उनके मुखिया ने समझाया कि उन्हें ये दाने नहीं चुगने चाहिए। कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और दाने चुगने के लिए चले गए और जाल में फंस गए। मदद की आशा से मुखिया ने उन्हें एक साथ उड़ने को कहा। सब कबूतर एक साथ जाल के साथ उड़ गए और शिकारी उन्हें देखता ही रह गया। वे मुखिया के दोस्त चूहे के घर गए। चूहे ने अपने दाँतों से जाल काटकर कबूतरों को आज़ाद कर दिया।

सारांश :- एकता ही सबसे बड़ी ताकत है।

## ACTIVITY SYLLABUS

MONTH	YOGA	TAEKWONDO	AEROBICS
-------	------	-----------	----------

<p><b>APRIL</b></p> <p><b>MAY</b></p>	<p>1) MEDITATION 2) TAADASANA 3) VRIKSHA AASANA 4) HASTOTAN AASANA 5) TRIKONA AASANA</p>	<p>HOW TO DO BOW? SINGLE PUNCHE S DOUBLE PUNCHE S</p>	<p>1) BASIC AEROBICS STEPS</p>
<p><b>JULY</b></p> <p><b>AUGUST</b></p> <p><b>SEPTEMBER</b></p>	<p>1) MEDITATION 2) USTRAA AASANA 3) VAJRAA AASANA 4) PADAM AASANA 5) BADPADM AASANA</p>	<p>1) TRIPPLE PUNCHES 2) FRONT RISING KICKS 3) SIDE RISING KICKS</p>	<p>1) FLOOR AEROBICS 2) BASIC ZUMBA STEPS</p>
<p><b>OCTOBER</b></p> <p><b>NOVEMBER</b></p> <p><b>DECEMBER</b></p>	<p>1) HALAA AASANA 2) PASHCHIMOTANA AASANA 3) MAKE- T 4) PLANK 5) DHANURA AASANA</p>	<p>1) FRONT PUSHKICKS 2) SIDE PUSHKICKS</p>	<p>1) FUN AEROBICS</p>

